



By E-Mail
E-Mail ID edupju_amroha@yahoo.com

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
अमरोहा

पत्रांक 3949 / प्रयोगशाला अमरोहा 53 दिनांक 24-10-2024

सेवा में,

दिल्ली पब्लिक स्कूल अमरोहा
नियर- आर० टी० ओ० ऑफिस
अतरासी रोड, अमरोहा


विषय- पानी की जांच के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, दिल्ली पब्लिक स्कूल अमरोहा नियर आर. टी. ओ.
ऑफिस अतरासी रोड अमरोहा दिनांक 22.10.2024 को लाये गये पेयजल नमूने की
जांच खण्डीय प्रयोगशाला में की गयी। जांचोंपरान्त जांच रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित
है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


भवदीय



(चन्द्रहास)

अधिशारी अभियन्ता

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिदिशि- अधिशारी अभियन्ता/जू०इं० लैव को सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।


अधिशारी अभियन्ता





Analysis Report

District Level Water Analysis Laboratory U.P., Jal Nigam (Rural) Amroha

Address- Atrasi to Joya bypass Road near R.T.O Office Amroha Uttar Pradesh Pin-244221

Report No.	3949	Date	24/10/2024	Page No.	1
Customer Details					
Office Name and Address	Delhi Public School Near R.T.O. Office Atrasi Road Amroha				
Ref Letter No & date					
Basic details of sample					
District	Amroha	Block	Amroha		
Gram Panchayat	-	Village	-		
Habitation	-	Location	Delhi Public SCHOOL		
Water Source	RO Plant	Sample No.	AMR/C/24/704		
Quantity of Sample	1 Lt	Date of S.C	22/10/2024		
Receiving Date	22/10/2024	Sample Collector	Lalit Kumar		
Sample Submit	22/10/2024	Sampling Method Used	IS 17614 (Part 1):2024		
Analysis	CHEMIST				
Analysis Start Date	22/10/2024	Analysis Completion date-	22/10/2024	Result Availability Date-	24/10/2024
Environmental Condition					
Temperature	25±3°C		Relative Humidity	Upto 50±15	

Technical Data of Analysis

S.R	Analysed Parameters (Unit of Measurement)	Observed Value	Specified Values as per IS 10500:2012		Ref Method of Analysis
			Acceptable Limit	Permissible Limit	
1	2	3	4	5	6
1	Colour (HU)	---	5	15	IS 3025 P-4:2021
2	pH	7.98	6.5-8.5	6.5-8.5	IS 3025 P-11:2022
3	TURBIDITY (NTU)	2.26	1.0	5.0	IS 3025 P-10:2023
4	TDS (mg/l)	172.00	500	2000	IS 3025 P-16:2023
5	CHLORIDE (mg/l)	70.00	250	1000	IS 3025 P-32:2019
6	TOTAL ALKALINITY (mg/l)	280.00	200	600	IS 3025 P-23:2023
7	TOTAL HARDNESS(mg/l)	310.00	200	600	IS 3025 P-21:2019
8	E.coli	0.0	Shall not be detectable in 100 ml sample		IS 15185:2016
9	Total Coliform	0.0	Shall not be detectable in 100 ml sample		IS 15185:2016

Note -

- 1- This Certificate refers only to the particular sample(s) submitted for testing..
- 2- This Certificate shall not be reproduced, except in full, unless written permission for the publication of an approved abstract has been obtained from Head of Laboratory.
- 3- The test results reported in this certificate are valid at the time of send under the stated conditions of measurements.
- 4- Sample will be stored up to 7 days. (in case of non-perishable items only) from the date of issue of tests report unless.

CHEMIST
Authorized Signatory
District Level Water Analysis Laboratory
Amroha